

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग-6,
संख्या-272 /XX-6/2018-01(20)2013
देहरादून: दिनांक- 24 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

नोशनल प्रोन्नति

एतद्वारा शासनादेश संख्या: 926/बीस-6/01(20) 2013, दिनांक 10.09.2014 के क्रम में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत वैज्ञानिक अधिकारी डा० मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्री अनिल कुमार को उनके आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री पान सिंह की ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि 11.09.2014 से वैज्ञानिक अधिकारी (वेतनमान ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4600) के पद पर प्राकल्पित पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- डा० मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्री अनिल कुमार को प्राकल्पित पदोन्नति दी जा रही है।
अतः इन्हें कोई एरियर देय नहीं होगा।


आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव।

संख्या-272 (1)/XX-6/2018-01(20) 2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-418/72/01 /डी०पी०सी० (वै०अ०)/सेवा-1/2017-18, दिनांक 08.03.2018 के संदर्भ में।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
4. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,



(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)

अनु सचिव।